

#shahjahanpurpol

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य 31.8.2021

SOG व सदर बाजार को मिली बड़ी कामयाबी,

शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा, 06 शराब तस्करी गिरफ्तार,

करीब 11 लाख रुपये की अंग्रेजी शराब सहित टूक, लक्सरी कार, फर्जी बारकोड बरामद ।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में अवैध शराब के निष्कर्षण व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान में जिसमें एसओजी टीम व थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 30/31.8.21 की रात्रि में थाना सदर बाजार पुलिस व एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से सुभाषनगर रेलवे क्रासिंग से मुखबिर की सूचना पर समय करीब 22.30 पर टाटा 407 गाडी में हरियाणा से बिहार के लिये तस्करी कर ले जा रही अवैध शराब 115 पैटी जिनमें 1375 कांच की शराब की बोतल व 455 अंग्रेजी के क्वार्टर व 119 फर्जी बारकोड सहित अभियुक्त गण नासिर अली, विनोद, भगवान सिंह, महेन्द्र, जसवीर, भरत सिंह को गिरफ्तार कर एक टाटा 407 गाडी नं० HR 69 D 1784 व एक i-20 गाडी नं० HR 30 V 3351 बरामद कर अभियुक्त गण के विरुद्ध मु०अ०सं० 632/21 धारा 420/467/468/471 भादवि व मु०अ०सं० 633/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम नासिर अली आदि 06 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- नासिर अली पुत्र अब्दुल रसीद नि० अजीजाबाद थाना हसनपुर जिला पलवल हरियाणा
- 2- विनोद पुत्र चमनलाल नि० रोहना थाना खरखौदा जिला सोनीपत हरियाणा
- 3- भगवान सिंह पुत्र लक्ष्मण नि० हाथिया थाना बरसाना जिला मथुरा उ०प्र०
- 4- महेन्द्र पुत्र जोगीराम नि० दुजाना थाना झज्जर जिला झज्जर हरियाणा
- 5- जसवीर पुत्र कृष्णलाल नि० रोहना थाना खरखौदा जिला सोनीपत हरियाणा
- 6- भरत सिंह पुत्र माखन सिंह नि० हाथिया थाना बरसाना जिला मथुरा उ०प्र०

बरामदगी का विवरण

- 1- 1375 कांच की बोतल अवैध शराब नाईट ब्लू मार्का
- 2- 455 क्वार्टर अंग्रेजी शराब नाईट ब्लू मार्का
- 3- 119 फर्जी बारकोड
- 4- एक टाटा 407 टैंकर गाडी रजिस्ट्रेशन नं० HR 69 D 1784
- 5- एक आई-20 गाडी रजिस्ट्रेशन नं० HR 30 V 3351
- 6- 7 अदद मोबाइल फोन

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त गण से पूछताछ की गयी तो बताया कि हमने एक साथ मिलकर टाटा 407 टैंकर गाडी तैयार करा रखी है हम इस गाडी का प्रयोग अवैध रूप से शराब की तस्करी करने में करते हैं हम टाटा 407 टैंकर से शराब लेकर

जाते हैं ताकि कोई इसे पेट्रोल या डीजल का टैंकर सोचकर शक न कर सके व हमें रास्ते में पुलिस आदि चौक न करें इससे हम लोग आसानी से अपने मंजील पर पहुंच जाते हैं टाटा 407 में दो लोग रहते हैं तथा हम चार लोग इसके साथ साथ आई-20 गाड़ी से चलते हैं। हम टैंकर के साथ चलने वाली गाड़ी में कुछ शराब सैम्पल के तौर पर रखते हैं हमारे पास से जो बार कोड मिले हैं वह सब फर्जी हैं उन्हें हम शराब की बोतल पर लगा देते हैं जिससे बार कोड लगा होने के कारण पार्टी शराब की सही व अच्छी मानती है तथा हमें शराब के अच्छे दाम मिल जाते हैं। हम लोग मैन रोड से न जाकर लिंक रोड से जाते हैं आज हम लोग सोनीपत हरियाणा से शराब लेकर बिहार जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही आप लोगो ने हमें पकड़ लिया है।

पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 रोहित कुमार प्र0 एसओजी
- 2- उ0नि0 अमित कुमार प्र0 चौकी शहवाजनगर थाना सदर बाजार
- 3- हे0का0 329 राजारामपाल सिंह , हे0का0 388 अमरजीत एसओजी
- 4- हे0का0 157 उदयवीर सिंह का01435 दिलीप कुमार, का0 1475 अजय कुमार एसओजी
- 5- का0264 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ,का01405 तोसिम हैदर एसओजी
- 6- का01805 प्रभात चौधरी , का01855 कुशल पाल सिंह एसओजी
- 7- का0 चा01408 कपिल ठाकुर एसओजी
- 8- हे0का0 360 रामवीर सिंह , हे0का0 कृष्णचन्द्र थान सदर बाजार
- 9- का0 संजीव कुमार व का0 अजय चौधरी सर्विलांस सैल